	Lot	Reserve Price (INR)	Incremental Bid (INR)	EMD (INR)
aper CIN: 349) ered AR, T- 23	Lot-	4,33,35,000	4,00,000	40,00,000
cutta pital, Salt ata, 106		1,77,390	5,000	15,000

st (ED) 25.01.2023 by 5 PM. The auction will be 1.2023 by 5 pm. The last date for payment of EMD is Invitations uploaded on http://hindpaper.in. The Elerms and conditions of online auction sale are also iontiger.net. All communication to be addressed to ill communication.

Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited 31 Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/16668 Registered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor Unit No.-501, Kolkata-700012 AFA valid till-11.12.2023

Registered Email id: E: kuverma@gmail.com Phone: +91 98360 77900 Date: 10.01.2023 Place: Kolkata

TOMOBILES LIMITED

2DL2003PLC119052

Barodia T Plot No 12, D Block, Central - 110085 Telephone No. 0260-3255493 m | Website: https://vaksonsautomobiles.com

NOTICE

nbers of Vaksons Automobiles Limited ("the) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read Companies (Management and Administration) Standard - 2 on General Meeting (the "SS-2"), Standard - 2 on General Meeting (the "SS-2"), I Exchange Board of India (Listing Obligations equilations, 2015 (the "Listing Regulations") on(s), clarification(s), substitution(s) or rebeing in force, guidelines prescribed by the MCA Circulars") and any other applicable laws of Appointment of Ms. Radhika Kharote as any as Special Business through Postal Ballot e-votino) and for the same consent of members e-voting) and for the same consent of members

npany has completed the dispatch of the Postal lanuary, 2023 to the Members of the Company 2023 ("Cut Off Date"). Members whose names 2023 ("Gut Un Date"). Members whose harlies neficial Owners maintained by the Depositories titled to cast their votes by e-voting. Members ill address and mobile numbers, are requested TA i.e. Cameo Corporate Services Ltd by writing

hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith pusiness replicenvelope will not be sent to the the asset sent of the Members would take and Ballot Forms only.

Ballot can be downloaded from the website of sonsautomobiles.com/and also on the website rvice provider) at www.evoting.nsdl.com. The site of BSE Limited where shares of the company

ervices of National Securities Depository Limited g e-voting facility/Postal Ballot to all its Members. hat the e-voting shall commence from Tuesday) to Wednesday, 08th February, 2023 (5:00 PM edisabled for voting thereafter.

ointed Mr. Jigarkumar Gandhi (Membership No. No. 8108), Practicing Company Secretary, as Postal Ballot and e-voting process in a fair and of the e-voting will be declared latest by Friday, so be uploaded on the Company's website and

or issues regarding e-voting, you may refer s. ("FAQs") and e-voting manual available at p section or write an email to evoting@nsdl.co.in/ For VAKSONS AUTOMOBILES LIMITED

> Mr. Atul Kumar Jain Managing Director DIN: 00004339

complete auction information and terms and continuous including available on https://ncitauction.auctiontiger.net or may reque

available on https://linkutcubs.incitedum/sastems/ ip.ckfs/g/btsa.in.

The Liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms and conditions of E-Auction or the liquidator can cancel the E-Auction or any item of E Auction at any time. The Liquidator has the right to reject any of the bids without assigning any reasons. Liquidator has the right to reject any of the bids without assigning any reasons. Deadline for payment of EMD (i.e. 10% of reserve price) and document submission is 05.00 PM on 24-01-2023.

**Review of the conducted on "AS IS WHERE IS "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS"

3. De

PM on 24-U1-2U23.
 E Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "NO COMPLAINT" basis only.
 The physical possession of entire lot of Plant and Machinery comprised above shall have to be taken within 15 days of payment of entire Sale consideration.

The rapy technical great properties a supplies appears content. Mr. Properties 150 and 150 and

taken within 15 days of payment of entire Sale consideration.

For any technical query regarding E-auction process, contact Mr. Praveen Thevar at +91 9722778828, 07968136837/6842, Email Id: praveen.thevar@auctiontiger.net.

Mr. Pardeep Kumar Sethi,

Date: 10.01.2023 Place: Mumbai Liquidator IBBI/IPA-001/IP-P00711/2017-2018/11265

FINANCIAL EXPRESS-10/1/2023

एनरीपीसी NTPC

NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)

Corporate Identification Number: L40101DL1975GOI007966
Regd. Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex 7, Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi -110003, Tel.: 011-24367072, Fax No.: 011-24361018
Email:isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in

ATTENTION VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD.

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules 2016), a Company is required to transfer the amount of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) setup by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to IEPFAccount.

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had

IEPF Account.

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at www.ntpc.co.in.

The Final Dividend for the financial year 2014-15 @ Rs. 1.75 per equity share was paid on 30.9.2015. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend became due for transfer to Fund. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount's shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF Rules, 2016.

Rules, 2016.

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account. To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/claimed/ encashed warrant(s) relating to the Final dividend for the financial year 2014-15 paid in September 2015 may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Béetal House, 3" Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062. Tel.: (011) 29961281, 29961282, Fax: (011) – 29961284 and Email: ntpc@beetalfinancial.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd. at the address indicated above. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, is received by the RTA/ NTPC Ltd. on or before 22.1.2023 to ensure that unclaimed/unpaid dividend amount and shares are not transferred to the Fund.

Subsequent last dates for lodging claims for unpaid/ unclaimed dividend and shares to IEPF are as under:-

es to IEPF are as under:-

Financial. Year	Nature of Dividend	Dividend%	Last dates of lodging claims	
	Interim	16.00%	28.2.2023	
2015-16	The state of the s		25.10.2023	
2015-16	Final	17.50%		
2016-17	Interim	26.10%	13.3.2024	
70116-17	IIIICIIIII		- 5 1- 2015	

2016-17 Interim 26.10% 13.3.2024

NTPC Ltd. had also issued Tax- Free Bonds – 2013, Tax-Free Bonds – 2015, and Bonus Debentures. Investors are also requested to check the details of such unclaimed interest amounts of Tax-Free Bonds and Bonus Debentures under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with the KFin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds and Bonus Debentures) at Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Phone No: 040-67161518; Fax: (+91 40) 2343 1551 and Email: einward.ris@kfintech.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd.
Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form.

For and on behalf of NTPC Ltd.

shares held in physical form. Sd/-

(Arun Kumar) Date: 9.1.2023 Place: New Delhi **Company Secretary**

Leading the Power Sector

Monday, February 06, 202 auction will have an unlimited ex time of the e-Auction will be exten is made within the last 5 Minutes b Auction Date and Time Set of Power Plant Equipments (C Limited (in Liquidation) at Dharwa Assets/Items for Sale unlisted equity shares, the detail process memorandum on the web Block A: Set of Power Plant Equ INR 18,95,26,103 (Rs. 18.95 cr Reserve Price Block B: Investments in unlisted INR 4,47,79,340 (Rs. 4.48 crore (The allove reserve price is excli All interested buyers must adher Participating in the Auction ns and Conditions or Proces be) hosted on the website www.g Last date for 07:00 PM on Friday, February 00 submission of EMD To schedule an inspection, please 6 Inspection liquidator.gncl@decoderesolv with details Requesting the sam

All interested bidders are advised to contact the unwriting to liquidator.gncl@decoderesolvency.ccommunication would be entertained.

Date: January 10, 2023 Place: Kolkata

IBBI Registration Number: IBBI/IPA

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: 13, Laxmanrao Kirloskar
Khadki, Pune - 411 003. (Maharashtra)
CIN: L27101PN1991PLC063223

NOTICE

respect of transfer of equity shares to the Investor Educat

The Notice is published pursuant to provisions of Set Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education a (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 a The Rules, inter-alia, contain provisions for transfer of dividend has not been paid or claimed for sever to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

It is noticed from the records that certain Membe encashed their dividend warrants and their dividend seven consecutive years from the financial year 2015-Pursuant to aforesaid Rules, the Company has com concerned Members, whose equity shares are liable pursuant to the said Rules. The Company has uploade equity shares due for transfer to the IEPF on its website. The Members are requested to verify details of unishares liable to be transferred to the IEPF.

Notice is given to all such Members to make a valid Registrar and Share Transfer Agent (RTA) with a rei holders alongwith proper identification proofs for cli-so that the equity shares are not transferred to the IEP It may kindly be noted that if no valid claim is received or before **9 April 2023**, the Company will transfer s without any further notice pursuant to the proced No claim shall lie against the Company in respect of equity shares transferred to the IEPF pursuant to the F Members are requested to note that unclaimed transferred to the IEPF (including benefits, if any, or backfrom the IEPF Authority afterfollowing procedur For any information / clarification / assistance, the contacted at below mentioned address:

Contact Details of the RTA	Contact
Link Intime India Private Limited	Kirloska
Akshay Complex, Block No. 202, Second	13, Laxr
Floor, Near Ganesh Temple,	Khadki,
Off Dhole Patil Road, Pune 411001	Telepho
Telephone: +91 (20) 46014473	Email:

For Kirlos

• Telephone: (020), 66084645 • Fax: (E-mail: kfilinvestor@kirloskar.com • Website: \

"Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owne "Kirloskar Ferrous Industries Limited" is the P

AND IN THE MATTER OF:

INANCE LIMITED

ANI, PODDAR COURT, GATE NO.4,
OOM NO.3, KOLKATA-700001
51909WB1982PLC035283;
nited@gmail.com;www.arcfinance.in;
lct. No. 033-32558-9854
-ORDINARY GENERAL MEETING
ordinary General Meeting ("FOGM") of the dinary General Meeting ("EOGM") of the Compa

KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

A Kirloskar Group Company Registered Office: Yamuna, S. No. 98 (3 to 7),

Plot No. 3, Baner, Pune 411 045

bing notice e-volung 411 o+5 because of the Alteration and the state of the Common and the state of the control of the state of the control o



BEFORE THE NATIONAL BENCH AT CP (CAA) NO. CA (CAA) NO. IN THE MATTER OF: The Companies Act, 2013

ई-मेल जगत पुरा, अहमदाबाद, गुजरात-382470 ANY" OR पता : ईंडन ।–807, एस जी हाईवे, गोदरेज गार्डन सिटी, गोदरेज गार्डन सिटी, ("ISSUE 10. परिसमापक के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल PRICE OF वान गण शहमदाबाद, गुजरात-382470 RVATION 11. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 02/02/2023 AN ISSUE एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-।।। THE NET ने दिनांक 03-01-2023 को (आदेश की प्रति 05-01-2023 को प्राप्त की गयी) अर्थ वाटर लिमिटेड DETAILS, के परिसमापन को प्रारंभ करने का आदेष दिया है।

ry shall be

hat higher

s, 2018 as

t for listing

anuary 12,

ed/blocked

received in

as per

000

000

000

000

vised

.00

.16

.15

Share, was

price of Rs

ares allotted

No. of

Shares Surplus, Deficit

estors, at the

al number of

No. of

Shares Surplus/ Deficit

-55,714

54,000

2,571

-20,571

18,000

1,714

0

10 0

in relation

s Allotted

के परिसमापन को प्रारंभ करने का आदेष दिया ह। एतदहारा अर्थ वाटर लिमिटेड के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मद सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, परिसमापक के पास 02–02–2023 को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य सहित अपने दावों को

प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण, अपने दावों को साक्ष्य सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। सम्पत अन्य ऋणदाता, साक्ष्य सहित दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जन्म

अन्य ऋणदाता, साक्ष्य सहित दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रीनिक माध्यमा से जन्म कर सकते हैं। दावों के त्रिट्यूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा। इस्कि कोल कियानी प्राच्यापाय प्रक्रिया के तीयान अपने हातों को प्रस्तत नहीं करता है. तो ऐसे किसी

दावा क न्नाटपूण अध्या भ्रामक साक्ष्य जमा करन पर दड आवरामदा किया जाएगा। [यदि कोयी हितग्राही परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपने दायों को प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे किसी हितग्राही द्वारा भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत निगमित ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किये गये दावों को धारा 38 के तहत जमा किया हुआ माना जायेगा।

रवींद्र कुमार गोयल अर्थ वाटर लिमिटेड के परिसमापक आईबीबीआई पंजी. सं: 1BBI/IPA-001/IP-P-02019/2020-2021/13098 पंजी. पता: ईंडन |-807, एस जी हाईवे, गोवरेज गार्डन सिटी,

गोदरेज गार्डन सिटी, जगत पुरा, अहमदाबाद, गुजरात—382470

दिनांक : 10-01-2023 ईमेल आईबी: ravindra1960_goyal@yahoo.co.in एएफए 06/06/2023 तक वैध

यूजियन बैंक U Union Bank of India नेहरू प्लेस शाखा, 73—74, शीतला हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110 019 ईमेल: UBIN0541214@unionbankofindia.bank

परिशिष्ट IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिमूति
हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस
शाखा 73—74, शीतला हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 (शारत) का प्राधिकृत अधिकारी
होने तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के
अधीन प्रवत शांवितयों के अंतर्गत कर्जदार नैसर्स रागे एक्सपोर्ट्स प्रा. ति., श्रीमती अनुपमा खन्ना
पत्नी श्री संजय खन्ना (संपत्ति के निरेशक सह गांदर सह मालिक) और श्री संजय खन्ना
(निदेशक सह गांदर) को एक मांग सूचना Ref No. NP/ADV/0033/2022-23 दिनांक
30/08/2022 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 1,50,38,236.17 (रु. एक करोड
पचास लाख अडतीस हजार दो सी छत्तीस और पैसे सत्रह मात्र) और संविदात्मक दर पर
भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उवत सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान

करने को कहा गया था। उधारकर्ता उत्तर सांश का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोडस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 05.01.2023 को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन—देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रू 1,50,38,236.17 (रु. एक करोड पचास लाख अडतीस हजार दो सौ छत्तीस और पैसे सत्रह मात्र) और मविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति / फ्लैट मकान नं. सी—401, द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली—110024 में स्थित, क्षेत्रफल 1798 वर्ग फीट, (प्लॉट क्षेत्रफल 325.00 वर्ग गज पर निर्माणित) यह सम्पत्ति श्रीमती अनुपमा खन्ना पत्नी श्री संजय खन्ना के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर में — प्लॉट नं. सी—400, दक्षिण में — प्लॉट नं. सी—402, पूरब में — सर्विस लेन, पश्चिम में — रोड

दिनांकः 05.01.2023, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त बबलू शाह पुत्र सलीम शाह निवासी मकान नं. एन—38/370, जहांगीर पुरी, सीडी पार्क, दिल्ली व सलमा डेयरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1374/15 धारा 454/380/34 भा.द.स. थाना विजय विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त बबलू शाह मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त बबलू शाह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्योषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1374/15 धारा 454/380/34 भा.द.स. थाना विजय विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त बबलू शाह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.03.2023 को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसारः श्री नवदीप गुप्ता महानगर दण्डाधिकारी (उत्तर-पश्चिम) कमरा नं. 109, प्रथम तल, रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली

DP/248/RD/23

का की का किसी गारी अध्याद

संपित्त के सभी भाग व अंश जिसमें, कार्यालय स्थान संख्या 1422, 14वीं मंजिल, ब्लॉक डी एंड ई, चंडीगढ़ सिटी सेंटर, वीआईपी रोड, ग्राम विशनपुरा, एम.सी. जीरकपुर, उप-तहसील जीरकपुर, तिवार हों। जिरकपुर, तहसील डेरावरसी, जिला एस.ए.एस. नगर, मोहाली 140603 स्थित भूमि के अविभाज्य अधिकारों के साथ, श्रीमती स्मृति त्रिवेदी पत्नी श्री मनोज कुमार और श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नरेंद्र पाल सिंह के नाम पर है।

सभी और एकल संरचनाओं और उन पर निर्माण, वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ।

प्रधानम् मोहाली, पंजाब द्रिमांकः 07.01.2023 अर्ड्डीबीआई बैंक लिमिटेड

एन टी पी सी लिपिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L40101DL1975GO1007966 पंजीकृत कार्यात्यः एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, इंस्टीटबूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, दूरमाषः 011–24367072, फैक्स नंबरः 011–24361018

ईमेल: isd@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in

एनटीपीसी लि. के सम्मानित शेयरघारक कृपया ध्यान दें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम 2016) के अनुसरण में, किसी भी कम्पनी को अप्रदत्त एवं अदावाकृत रही तथा इस राशि के अंतरण की तिथि से निरंतर सात (7) वर्षों की अवधि तक दावा रहित अप्रदत्त लामांश राशि को, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (कोष) में हस्तांतरित करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) एवं आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुपालन में ऐसे सभी शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा, जिसके लिए निरंतर सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयरों का लाभांश लगातार सात वर्षों से अदावाकृत या अप्रदत्त था, तथा उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित कर दिया गया है, का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए रु. 1.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लामांश का भुगतान 30.09.2015 को किया गया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त कथित लामांश की अप्रदत्त एवं अदावाकृत राशि कोष में अंतरित होने के लिए देय हो गई है। ऐसे धारकों के वह शेयर जिनका लगातार सात वर्षों से लामांश का भुगतान/दावा नहीं हुआ है, वह भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में हस्तांतरण के लिए बाध्य हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि यदि राशि / शेयरों को कोष में अंतरित कर दिया जाता है तो आईईपीएफ नियम, 2016 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर उसे 'निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण' से वापस प्राप्त करने का दावा करना होगा।

श्वात विवास स्वात जिय आवार कर्म से अर्थ के लिए देय अदावाकृत / अप्रदत्त लागांश / शेयरों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.ntpc.co.in के "निवंशक" खण्ड के अंतर्गत "आईईपीएफ विवरण" को देख सकते हैं। निवंशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण से रिफंड / शेयरों का दावा करने की असुविधा से बचने के लिए ऐसे शेयरथारक जिन्होंने सितम्बर, 2015 में प्रदत्त वित्त वर्ष 2014—15 के अंतिम लामांश से संबंधित वारंट प्राप्त / उसका वावा / उसका नगदीकरण नहीं किया है, वे अपने वावे आरटीए अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नजदीक वादा हरसुखदास मंदिर, नई दिल्ली—110062, फोन नं (011) 29961281, 29961282, फैक्स नं, 011)-29961284, ई—मेल ntpc@beetalfinancial.com के पास या उपरोक्त वर्णित पते पर उप नोडल अधिकारी, निवंशक सेवाएं विमाग, एनटीपीसी लि. के पास वाखिल कर सकते हैं। शेयरथारक कृपया यह सुनिश्चित कर कि दावे, यदि कोई हो, 22.1.2023 को या उससे पूर्व आरटीए / एनटीपीसी लि. को प्राप्त हो जाएं तािक अप्रदत्त / दावा रहित लामांश पाशि तथा शेयरों को इस कोष में अंतरित न किया जाये।

आईईपीएफ के पास अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश एवं शेयरों के लिए दावा प्रस्तुत करने की अनुवर्ती अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं:

एनटीपीसी लि. ने टैक्स-फ्री बॉड्स-2013, टैक्स-फ्री बॉड्स-2015 एवं बोनस डिबेंचर्स भी जारी किये थे। निवेशकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट www.ntpc.co.in के "निवेशक" खण्ड के अंतर्गत टैक्स-फ्री बॉड्स और बोनस डिबेंचर्स की ऐसी अदावाकृत ब्याज राशि के विवरणों की जांच कर ले और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टैक्स-फ्री बॉड्स एवं बोनस डिबेंचर्स के लिए आरटीए), सेलेनियम टॉक्स-बी, प्लॉट नं 31 एवं 32, गांचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंग्समटली, हैदराबाद-500032, फोन नं .040-67161518; फैंक्स नं (+91 40) 2343 1551, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com या उप नोडल अधिकारी, निवेशक सेवाएं विमाग, एनटीपीसी लि. के पास दावे दाखिल करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) एवं मौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी / आरटीए के पास अपनी ई-मेल आईडी तथा अन्य संबंधित

विवरणों को अपडेट कराते रहें। एनटीपीसी लि. के लिए एवं उसकी ओर से हस्ता./— दिनांकः 9.1.2023 स्थान: नई दिल्ली कम्पनी संचिव

स्थानः नई दिल्ली विद्युत क्षेत्र में अञ्चणी

💇 कॅरिअर पॉइंट लिमिटेड

रिजस्टर्ड ऑफिस: ग्राम टेंगोरी, बानूर, मोहाली (पंजाब) 140601 कॉरपोरेट ऑफिस: सीपी टॉवर—1, रोड़ नं.1, आईपीआईए, कोटा (राज.) 324005 CIN: L80100PB2000PLC054497, फोन: 080-47250011, 90575-32030 वेबसाइट: www.cpil.in, ई—मेल: investors@cpil.in

पोस्टल बैलेंट ∕इलेक्ट्रानिक वोटिंग (ई-वोटिंग) की सूचना

किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 संपठीत कंपनी (प्रबंधन १८) मधा हो डाठाउँचा है कि घार विश्व विधान

	Lot	Reserve Price (INR)	Incremental Bid (INR)	EMD (INR)
aper CIN: 349) ered AR, T -	Lot-1	4,33,35,000	4,00,000	40,00,000
cutta pital, Salt ata, 106	Lot-	1,77,390	5,000	15,000

st (EOI) 25.01.2023 by 5 PM. The auction will be 1.2023 by 5 pm. The last date for payment of EMD is Invitations uploaded on http://hindpaper.in. The E-erms and conditions of online auction safe are also fontiger.net. All communication to be addressed to

Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited 31 Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 legistered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor Unit No.-501, Kolkata-700012 AFA valid till-11.12.2023

Registered Email id: E: kuverma@gmail.com Phone: +91 98360 77900 Date: 10.01.2023 Place: Kolkata

TOMOBILES LIMITED

201 2003PI C119052

Barodia T Plot No 12, D Block, Central - 110085 Telephone No. 0260-3255493 om | Website: https://vaksonsautomobiles.com

NOTICE

nbers of Vaksons Automobiles Limited ("the) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read Companies (Management and Administration) Standard - 2 on General Meeting (the "SS-2") Standard - 2 on General Meeting (the "SS-2"), I Exchange Board of India (Listing Obligations: gulations, 2015 (the "Listing Regulations") ion(s), clarification(s), substitution(s) or rebeing in force, guidelines prescribed by the MCA Circulars") and any other applicable laws of Appointment of Ms. Radhika Kharote as any as Special Business through Postal Ballot e-voting) and for the same consent of members

npany has completed the dispatch of the Posta npany has completed the dispatch of the Postal January, 2023 to the Members of the Company 2023 ("Cut Off Date"). Members whose names neficial Owners maintained by the Depositories titled to cast their votes by e-voting. Members il address and mobile numbers, are requested TA i.e. Cameo Corporate Services Ltd by writing

hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith business ready envelope will not be sent to the the asset sent of the Members would take and Ballot Forms only.

Ballot can be downloaded from the website of sonsautomobiles.com/and also on the website rvice provider) at www.evoting.nsdl.com. The site of BSE Limited where shares of the company

ervices of National Securities Depository Limited g e-voting facility/Postal Ballot to all its Members. hat the e-voting shall commence from Tuesday) to Wednesday, 08th February, 2023 (5:00 PM disabled for voting thereafter.

disabled for voting thereafter.

binted Mr. Jigarkumar Gandhi (Membership No. No. 8108), Practicing Company Secretary, as Postal Ballot and e-voting process in a fair and of the e-voting will be declared latest by Friday, so be uploaded on the Company's website and

or issues regarding e-voting, you may refer s ("FAQs") and e-voting manual available at p section or write an email to evoting@nsdl.co.in/ For VAKSONS AUTOMOBILES LIMITED

INANCE LIMITED

ANI, PODDAR COURT, GATE NO.4,

1909WB1982PLC035283; nited@gmail.com;www.arcfinance.in; ct. No. 033-3258-9854 \-ORDINARY GENERAL MEETING

inary General Meeting ("EOGM") of the Compan

OOM NO.3, KOLKATA-700001

Mr. Atul Kumar Jai naging Director DIN: 00004339

complete auction information and terms and conditions including the cavallable on https://ncltauction.auctiontiger.net or may request through

For and on behalf of NTPC Ltd res held in physical form.

Date: 9.1.2023 Place: New Delhi

Company Secretary

ip.ckfsl@rbsa.in. 2. The Liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms and conditions of E-Auction or the liquidator can cancel the E-Auction or any item of E Auction at any time. The Liquidator has the right to reject any of the bids without assigning any reasons. 3. Deadline for payment of EMD (i.e. 10% of reserve price) and document submission is 05.00 PM on 24-01-2023. 4. E Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" 4. E AUCUOTIVIII DE LAINT* basis only. and *NO COMPLAINT* basis only. 5. The physical possession of entire lot of Plant and Machinery comprised above shall have to be taken within 15 days of payment of entire Sale consideration. The physical possession of entire lot of Plant and Machinery comprised above shall have to be taken within 15 days of payment of entire Sale consideration. For any technical query regarding E-auction process, contact Mr. Praveen Thevar at +91 9722778828-07968136837/6842, Email Id: praveen.thevar@auctiontiger.net. Mr. Pardeep Kumar Sethi. Date: 10.01.2023 Place: Mumbai IBBI/IPA-001/IP-P00711/2017-2018/11265

FINANCIAL EXPRESS-10/1/2023

TPC Limited एनटीपीसी NTPC (A Govt. of India Enterprise)

Corporate Identification Number: L40101DL1975GOI007966
Regd. Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex 7, Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi -110003, Tel.: 011-24367072, Fax No.: 011-24361018
Email:isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in

ATTENTION VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD.

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules 2016), a Company is required to transfer the amount of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) setup by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to IEPF Account.

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had

IEPF Account.

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at www.ntpc.co.in.

The Final Dividend for the financial year 2014-15 @ Rs. 1.75 per equity share was paid on 30.9.2015. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend became due for transfer to Fund. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount/ shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF Rules, 2016.

Rules, 2016.

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account. To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/claimed/ encashed warrant(s) relating to the Final dividend for the financial year 2014-15 paid in September 2015 may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Béetal House, 3" Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062. Tel.: (011) 29961281, 29961282, Fax: (011) – 29961284 and Email: ntpc@beetalfinancial.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd. at the address indicated above. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, is received by the RTA/ NTPC Ltd. on or before 22.1.2023 to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to the Fund.

Subsequent last dates for lodging claims for unpaid/ unclaimed dividend and shares to IEPF are as under:
Financial. Nature of Dividend% Last dates of lodging claims

Financial. Year	Nature of Dividend	Dividend%	Last dates of lodging claims
	Interim	16.00%	28.2.2023
2015-16	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	25.10.2023
2015-16	Final	17.50%	13.3.2024
2016-17	Interim	26.10%	13.3.2024

2016-17 Interim 26.10% 13.3.2024

NTPC Ltd. had also issued Tax- Free Bonds – 2013, Tax-Free Bonds – 2015, and Bonus Debentures. Investors are also requested to check the details of such unclaimed interest amounts of Tax-Free Bonds and Bonus Debentures under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with the KFin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds and Bonus Debentures) at Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Phone No: 040-67161518; Fax: (+91 40) 2343 1551 and Email: einward.ris@kfintech.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd.
Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/RTA, in case of shares held in physical form.

(Arun Kumar)

Leading the Power Sector

•	1	Auction Date and Time	Monday, February 06, 202 auction will have an unlimited ex time of the e-Auction will be exten is made within the last 5 Minutes t
	2	Assets/Items for Sale	Set of Power Plant Equipments (C Limited (in Liquidation) at Dharwa unlisted equity shares, the detai process memorandum on the web
	3	Reserve Price	Block A: Set of Power Plant Equ INR 18,95,26,103 (Rs. 18.95 cr Block B: Investments in unlisted INR 4,47,79,340 (Rs. 4.48 crore (The allove reserve price is excl
	4	Participating in the Auction	All interested buyers must adher Terms and Conditions or Process be) hosted on the website www.gi
۱	5	Last date for submission of EMD	07:00 PM on Friday, February 00
	6	Inspection	To schedule an inspection, please liquidator.gncl@decoderesolv with details Requesting the same
			- diseased to contact the III

All interested bidders are advised to writing to liquidator.gncl@decoderesolvency.c communication would be entertained.

Date: January 10, 2023 Place: Kolkata

IBBI Registration Number: IBBI/IPA

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

respect of transfer of equity shares to stor Educa

The Notice is published pursuant to provisions of Sec Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education a (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 a The Rules, inter-alia, contain provisions for transfer of dividend has not been paid or claimed for seven to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

It is noticed from the records that certain Membe encashed their dividend warrants and their dividenc seven consecutive years from the financial year 2015-Pursuant to aforesaid Rules, the Company has com concerned Members, whose equity shares are liable pursuant to the said Rules. The Company has uploade equity shares due for transfer to the IEPF on its website. The Members are requested to verify details of unsares liable to be transferred to the IEPF.

Notice is given to all such Members to make a valid Registrar and Share Transfer Agent (RTA) with a reholders alongwith proper identification proofs for class that the equity shares are not transferred to the IEP It may kindly be noted that if no valid claim is received or before **9** April **2023**, the Company will transfer s without any further notice pursuant to the proced No claim shall lie against the Company in respect of equity shares transferred to the IEPF pursuant to the F Members are requested to note that unclaimed transferred to the IEPF (including benefits, if any, or backfrom the IEPF Authority afterfollowing procedur For any information / clarification / assistance, the contacted at below mentioned address:

Contact Details of the RTA Link Intime India Private Limited Akshay Complex, Block No. 202, Second Floor. Near Ganesh Temple,	Contact	
Link Intime India Private Limited Akshay Complex, Block No. 202, Second Floor, Near Ganesh Temple, Off Dhole Patil Road, Pune 411001 Telephone: +91 (20) 46014473 Email: pune@linkintime.co.in	Kirloska 13, Laxr Khadki, Telepho Email:	

For Kirlos

• Telephone: (020) 66084645 • Fax: ((E-mail: kfilinvestor@kirloskar.com • Website: y

ng word "Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owne 'Kirloskar Ferrous Industries Limited' is the F

BEFORE THE NATIONAL CP (CAA) NO. CA (CAA) NO.

IN THE MATTER OF: The Companies Act, 2013 AND IN THE MATTER OF:

A Kirloskar Group Company

Plot No. 3, Baner, Pune 411 045

through remote e-voting) for Approval for the Alteration and/



